

#### **NIIT Limited**

85, Sector-32, Institutional Gurgaon 122001, India Tel: +91 (124) 4293000 Fax: +91 (124) 4293333 Email: info@niit.com

Registered Office: 8, Balaji Estate, First Floor Guru Ravi das Marg, Kalkaji New Delhi 110 019, India CIN: L74899DL1981PLC015865

www.niit.com

November 1, 2020

The Manager BSE Limited

Corporate Relationship Department, 1<sup>st</sup> Floor, New Trading Wing, Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001 The Manager National Stock Exchange of India Ltd

Listing Department Exchange Plaza 5<sup>th</sup> Floor, Plot no C/1, G Block Bandra Kurla Complex Bandra (E),Mumbai – 400 051

Subject: Submission of copies of newspaper advertisement for publication of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020

Scrip Code: BSE-500304 NSE-NIITLTD

Dear Sir/Madam,

Enclosed herewith please find copies of the newspaper advertisement of October 31, 2020 (Financial Express and Jansatta) for publication of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours truly, For **NIIT Limited** 

Deepak Bansal Company Secretary & Compliance Officer

Encls: a/a

**FINANCIAL EXPRESS** 

# Axis Bank rejigs Max Life deal after RBI disapproval Axis Entities) have agreed to

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, October 30

**AXIS BANK ON** Friday said the Reserve Bank of India has not allowed it to directly acquire 17% stake in Max Life Insurance, and the lender will now purchase shares in the life insurer along with its subsidiaries.

Axis Bank and its entities have revised the agreement with Max Financial, the promoter of Max Life, to acquire a 19.002% stake in the insurance firm, the lender said in a regulatory filing.


In late August this year, Axis Bank had entered into a definitive agreement with Max

Financial Services (Max Financial) for the direct acquisition of a 17.002% of equity share capital of Max Life Insurance Company (Max Life) by the lender.

"In response to Axis Bank's application to the Reserve Bank of India on directly acquiring 17.002% of the equity share capital of Max Life, the Reserve Bank of India has advised Axis Bank that the application for direct acquisition of 17.002% has not been considered," it said in a regulatory filing.

Axis Bank has been advised to be guided by the relevant regulations of the RBI, it added.

"Axis Bank and its subsidiaries — Axis Capital Ltd and Axis Securities Ltd (together



### **FORCED CHANGES**

- The lender will now purchase shares in the life insurer along with its subsidiaries
- Lender said its total stake in Max Life will remain within the limits stipulated under laws and regulations
- Axis Bank and its entities have revised pact to acquire 19.002% stake in the insurance firm

enter into revised agreements with Max Financial for acquisition of up to 19.002% of the equity share capital of Max Life (revised agreements)," the filing said.

The lender said its total stake in Max Life will remain within the limits stipulated under the applicable laws and regulations.

"Under the revised agreements, Axis Bank will acquire up to 9.002% of the equity share capital of Max Life, and Axis Capital Limited and Axis Securities Limited will together acquire up to 3% of the share capital of Max Life.

"In addition, Axis entities

will have a right to acquire an additional stake of up to 7% of the equity share capital of Max Life, in one or more tranches, in accordance with existing laws and regulations," it said.

The revised agreements will supersede the previous agreements entered into between the parties. The transaction is subject to conditions precedent, including regulatory approvals, the lender added further.

Axis Bank was to originally acquire 29% stake in Max Life. However, some changes had to be made to the deal following correspondence from the Insurance Regulatory and Development Authority of India.

# Forex reserves surge to record high of \$560.5 bn

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, October 30

THE FOREIGN EXCHANGE reserves swelled by \$5.412 billion to touch an all-time high of \$560.532 billion for the week ended October 23, the RBI data showed on Friday.

In the previous week ended October 16, the reserves stood at \$555.12 billion after increasing by \$3.615 billion.

During the reporting week, the surge in the forex kitty was mainly on account of an increase in foreign currency assets (FCAs), a major component of the overall reserves.

FCAs rose by \$5.202 billion

to \$517.524 billion, the RBI's weekly data showed.

Expressed in dollar terms, the foreign currency assets include the effect of appreciation or depreciation of non-US units like the euro, pound and yen held in the foreign

exchange reserves. The gold reserves were up by \$175 million in the reporting week to \$36.860 billion, as per the central bank data.

The special drawing rights with the International Monetary Fund (IMF) rose by \$8 million to \$1.487 billion. The country's reserve position with the IMF also climbed by \$27 million to \$4.661 billion.

# Max Financial net profit rises 26% to ₹81 cr in Sept qtr

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, October 30

MAX FINANCIAL SERVICES (MFSL), the holding company of Max Life Insurance, on Friday reported a 26% increase in its consolidated net profit to ₹81 crore for the September quarter.

The company had posted a net profit of ₹64 crore in the corresponding period of the previous fiscal.

The profit grew by 26% due to reversal of impairment loss on investments. the company said in a statement.

MFSL's consolidated revenues rose by 50% to ₹7,020 crore due to higher investment income, it said.

"In Q2FY21, Max Life reported shareholders' profit of ₹26 crore, down 70% over the previous year, due to a higher new business strain owing to higher non-par and protection sales, partially offset by higher investment income. This shift also boosted new business margins and value of new business," it said.

Max Life's assets under

PTC India

Fin Services

28% ₹32 cr

**PRESS TRUST OF** 

INDIA

New Delhi.

October 30

tember quarter.

cial year.

profit falls



Max Life's emphasis will remain on increasing protection penetration as well as re-balancing product mix

management (AUM) stood


Individual protection grew by 78% year-on-year and penetration increased to 12% in the first half, compared to 7% in the same

On the back of consistent H1 performance, Max Life's emphasis will remain on increasing protection penetration, rebalancing product mix and long-term transformational initiatives across agency, technology and customer obsession, managing director Prashant Tripathy



at ₹77,764 crore, an increase of 19%, it said.

period a year ago.



EXTRACTS OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2020

(₹ in Crores except per share data)

				Standalone					Consolidated		
S. No.	Particulars	For the quarter ended		For the half year ended		For the year ended	For the quarter ended		For the half year ended		For the year ended
		30 September 2020	30 September 2019	30 September 2020	30 September 2019	31 March 2020	30 September 2020	30 September 2019	30 September 2020	30 September 2019	31 March 2020
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1 2 3 4 5	Total income from operations EBITDA *  Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extra ordinary items) Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extra ordinary items) Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extra ordinary items)	3,156.00 352.28 143.97 168.58 97.80	3,170.38 317.10 77.73 85.11 51.92	4,417.52 429.88 5.18 43.75 11.30	6,237.10 630.89 158.55 190.29 118.75	12,320.11 1,174.82 236.05 244.36 152.88	3,314.13 344.80 124.72 149.03 81.73	3,291.05 318.49 70.45 74.95 37.82	4,690.19 408.82 (38.48) (17.58) (40.05)	6,554.37 618.34 128.37 159.06 84.47	12,950.87 1,139.48 168.68 165.26 71.32
6	Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	97.80	51.92	11.30	118.75	151.87	83.00	38.38	(38.28)	88.27	78.66
7 8	Paid up Equity Share Capital (face value of ₹2 each) Other equity	97.45	97.45	97.45 2,636.37	97.45 2,524.57	97.45 2,559.87	97.45	97.45	97.45 2,644.65	97.45 2,617.71	97.45 2,619.79
	Net Worth Paid up Debt Capital/Outstanding Debt Outstanding Redeemable Preference Shares Debt-Equity Ratio			2,733.82 474.88 1.19	2,622.02 118.08 1.48	2,657.32 497.68 1.38			2,742.10 474.88 1.27	2,715.16 118.08 1.56	2,717.24 497.68 1.44
13	Earning per share (EPS) (face value of ₹2 each) a) Basic b) Diluted (EPS for the period not annualised)	2.01 2.01	1.08 1.06	0.23 0.23	2.48 2.37	3.16 3.16	1.68 1.68	0.79 0.79	(0.82) (0.82)	1.76 1.76	1.48 1.48
15	Capital Redemption Reserve Debenture Redemption Reserve Debt Service Coverage Ratio Interest Service Coverage Ratio			20.00 24.42 0.87 1.77	20.00 32.07 1.39 2.28	20.00 24.42 1.12 2.14		<u>V</u>	20.00 24.42 0.82 1.64	20.00 32.07 1.34 2.16	20.00 24.42 1.07 2.01

# EBITDA = Earnings before Interest, Tax, Depreciation & Amortization and Other Income

1 The above is an extract of the detailed format of guarterly/half yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/half yearly financial results are available on the Company's website: (www.jslstainless.com) and on the websites of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com)

2 The financial results of the Company/Group for the guarter and half year ended 30 September 2020 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 30 October 2020 and a limited review of the same has been carried out by the statutory auditors.

Consolidated

3 These results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

Place: New Delhi Date: 30 October, 2020

Standalone

By Order of the Board of Directors For Jindal Stainless Limited Tarun Kumar Khulbe Whole Time Director

### JINDAL STAINLESS LIMITED

(CIN: L26922HR1980PLC010901) Regd. Office: O.P. Jindal Marg, Hisar-125 005 (Haryana) Tel: (01662) 222471-83 | Fax: (01662) 220499 Email Id. for Investors: investorcare@lindalstainless.com Website: www.jslstainless.com

# NIIT

### NIIT LIMITED

Regd Office: 8, Balaji Estate, First Floor, Guru Ravidas Marg, Kalkaji, New Delhi-110019 Ph.: 91 (11) 41675000 Fax: 91 (11) 41407120 Website: http://www.niit.com Email: investors@niit.com Corporate Identity Number: L74899DL1981PLC015865

Extract of Unaudited Financial Results for the guarter and half year ended September 30, 2020

(Rs. in Millions, except per share data)

#### Year ended Quarter ended Year ended Period ended Quarter ended Period ended Year to date 3 Months Preceding Correspond-Year to date Year to date Previous 3 Months Preceding Corresponding Year to date Previous 3 months ended 3 months ing 3 months figures for the figures for the year ended ended 3 months figures for the figures for the year ended PTC INDIA FINAN-September ended June ended current period previous period March 31, September ended June ended current period previous period March **Particulars CIAL** Services (PFS) 2020 30, 2020 30, 2020 ended Septemended Septem-30, 2020 30, 2020 ended Septemended Septem-31, 2020 September September has reported a 28% 30, 2019 ber 30, 2020 ber 30, 2019 30, 2019 ber 30, 2019 ber 30, 2020 decline in its net Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited profit to ₹31.85 (Restated - refer (Restated - refer refer notes 4 (refer notes 4 crore for the Sepand 5) and 5) note 4) note 4) 2,188.70 2,017.64 2,323.46 4,206.54 4,341.27 8,891.83 865.05 797.21 1,662.26 2,087.15 4,008.57 Total Income from Operations 1,128.90 The non-bank-Net Profit for the period (before Tax. ing finance com-1,415.61 375.42 398.58 774.00 786.02 254.39 335.87 539.12 590.26 755.44 Exceptional and/or Extraordinary items) 507.14 1,216.10 pany had posted a net profit of ₹44.24 Net Profit for the period before tax (after 181.82 crore in the corre-379.65 769.34 14,132.92 539.12 483.68 Exceptional and/or Extraordinary items) 389.99 507.14 13,796.10 301.86 15,335.73 15,217.78 sponding quarter of Net Profit for the period after tax (after the previous finan-Exceptional and/or Extraordinary items) 300.49 2,139.65 134.66 239.53 13,820.09 13,777.69 331.63 632.12 13,176.78 13,577.30 2,177.47 374.19 (before discontinued operations) "The net profit (Loss) after tax from discontinued operations (40.61)(38.03)(51.32)(78.64)(180.62)(4.48)(5.96)(9.66)(75.32)(94.05)(305.46)(5.18)stands at ₹32 crore, Net Profit for the period after tax (after with an improve-259.88 293.60 2,088.33 553.48 12,996.16 13,271.84 130.18 234.35 2,171.51 364.53 13,744.77 13,683.64 Exceptional and/or Extraordinary items) ment in our net Total Comprehensive Income for the period interest margins to [Comprising Profit/ (Loss) for the period 3.58%. With much-(after tax) and other Comprehensive Income needed liquidity 248.70 301.43 2,093.74 550.13 12,983.43 13,310.14 148.26 240.22 2.160.39 388.48 13,732.37 13,649.44 (after tax)] boost, we are now increasing our focus Paid-up equity share capital (face value of on lending towards Rs. 2 each, fully paid) 283.52 283.20 335.79 283.52 335.79 283.03 283.52 283.20 335.79 283.52 335.79 283.03 sustainable infra-Reserves excluding revaluation reserves 14,924.51 15,044.22 structure projects, Earnings/(Loss) Per Share (of Rs. 2/- each) renewables, HAM (not annualised, in Rs.) (hybrid annuity Continuing Operations model) projects, Basic 2.13 2.31 12.75 4.44 78.63 84.78 0.95 1.70 12.99 2.64 82.46 86.01 waste management, 2.30 12.75 4.42 1.69 2.63 2.11 78.08 84.31 0.94 12.91 81.87 85.53 Diluted sewage treatment Discontinued Operations plants, gas distribu-- Basic (0.29)(0.26)(0.31)(0.56)(1.08)(1.91)(0.03)(0.04)(0.04)(0.07)(0.45)(0.59)tion and electric (0.56)(0.04)(0.29)(0.26)(1.08)(0.03)(0.04)(0.07)(0.45)(0.59) Diluted (0.31)(1.91)vehicle charging," PFS said in a state-Continuing and Discontinued Operations ment on Friday. 1.66 12.95 2.57 85.42 Basic 1.84 2.05 12.44 3.88 77.55 82.87 0.92 82.01 1.82 2.56 - Diluted 2.04 12.44 3.86 77.00 82.40 0.91 1.65 12.87 84.94 Total income during 81.42

### Notes:

- 1. The above is an extract of the detailed format of guarterly / year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarterly year to date Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website, www.niit.com.
- The above results were reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on October 30, 2020.

- Total Income from Operations represent revenue from operations
- During the previous year, in line with its restructuring strategy of subsidiaries, the Company signed a business purchase the business (excluding cash and cash equivalents) from its wholly owned subsidiary NIIT Institute of Process Excellence Limited. Further, in line with its stated long term strategy of reducing exposure to low margin, capital intensive government business, the Company had decided not to pursue new skill contracts in its wholly owned subsidiary NIIT Yuva Jyoti Limited ("NYJL") and discontinue operations post completion of continuing commitments. During the previous year the Company took over the intellectual property rights and other assets and liabilities from NYJL through transfer agreements. The above transactions were treated as business combination and the Company had applied pooling of interest method to account for such Business Combination. Based on the requirements of Appendix C to Ind AS 103, the Company has restated financial

information appearing in these financial results in respect of guarter and period ended September 30, 2019. In pursuance of applicable accounting standard (IND AS - 105), the net results (i.e. revenue minus expenses) of NYJL operations for the guarter are disclosed separately under 'Discontinued Operations' along with corresponding restatement of the financial

results for the previous periods. During the previous year, the Group has decided to divest Mindchampion Learning Systems Limited (MLSL), to a strategic / financial investor. In the interim period, NIIT remains committed to support MLSL for continuity of operations and value creation for all stake holders. In pursuance of applicable accounting standard (IND AS - 105), the net results for the quarter of MLSL operations (revenue less expenses) are disclosed separately under 'Discontinued Operations', along with corresponding reclassification of the consolidated financial results for the previous periods.

> For NIIT Limited Vijay K Thadani

By order of the Board

ber 30, 2020.

aggregate of loan assets and non-fund based commitments against sanctioned loans stood at ₹11,638 crore as on Septem-

financialexp.epap.in

July-September fell

to ₹297.98 crore,

against ₹354.11

crore in the year-ago

The company has received addi-

tional credit lines of

₹700 crore in the second quarter of

Its total out-

standing credit —

2020-21, it said.

period, PFS said.

Place: Gurugram Date: October 30, 2020





Vice-Chairman & Managing Director

## बीस रुपए में प्रतिदिन 70 हजार लोगों को भोजन

तिरुवनंतपुरम, ३० अक्तूबर (भाषा)।

कीमतों के बीच यदि कोई होटल लोगों को महज 20 रुपए में लजीज भोजन उपलब्ध कराए तो सुन कर हैरानी होगी। केरल में होटल की एक शृंखला इतने ही रुपए में लोगों को भोजन करा रही है, जो कोरोना विषाणु संक्रमण से प्रभावित हुए दैनिक कामगारों के लिए बेहद राहत

देने वाला कदम है। महिलाओं के नेटवर्क कदमश्री संचालित द्वारा जनकिया होटल्स' प्रतिदिन 20 रुपए में औसतन 70,000 लोगों के लिए भोजन की बिक्री करता है। कदमश्री गरीबी उन्मुलन मिशन है और राज्य का महिला सशक्तिकरण का सबसे सफल मॉडल है।

# पनवेल में 1.83 लाख के गुटखा के साथ एक गिरफ्तार

ढाणे, ३० अक्तूबर (भाषा)।

महाराष्ट के पनवेल में पुलिस ने शुक्रवार को छापेमारी कर 1.83 लाख का गुटखा और अन्य तंबाकृ उत्पाद को बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

पनवेल थाने के वरिष्ठ निरीक्षक जय लांडगे ने बताया, 'गुप्त सूचना के आधार पर रायगढ़ जिले के पनवेल के पास करंजडे में गुरुवार की शाम पुलिस ने एक कार से प्रतिबंधित गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद बरामद किया। इसके मालिक का पता लगाया गया और उसके घर पर छापेमारी के दौरान कुछ अन्य सामान बरामद किया गया।' उन्होंने बताया कि आरोपी वीरेंद्र गुप्ता (34) को गिरफ्तार कर लिया गया है।

वीसीके

प्रमुख ने

भाजपा की

यात्रा का

किया विरोध

चेन्नई, 30 अक्तूबर

िटादु शलाई

चिरुथिगाल काची के

शुक्रवार को तमिलनाडु

के पुलिस महानिदेशक

से अनुरोध किया कि वे

अगले महीने भाजपा की

प्रस्तावित 'यात्रा' को

अनुमति न दें। उन्होंने

आरोप लगाया कि इससे

हिंसा को बढ़ावा मिल

उन्होंने डीजीपी जेके

त्रिपाठी को अपनी

याचिका सौंपी और शीर्ष

अधिकारी ने आश्वासन

आरोप लगाया कि

प्रस्तावित यात्रा के

माध्यम से तमिलनाडु में

हिंसा और सांप्रदायिक

भावनाओं को भडकाने'

इसलिए इसकी अनुमति

नहीं दी जानी चाहिए।'

की घोषणा की है।

महीने भर चलने

वाला यह अभियान

उत्तर तमिलनाडु के

तिरुत्तानी से शुरू होकर

राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में

तिरुचेंदुर में समाप्त

होगा। वीसीके नेता ने

मुख्यमंत्री से अपील की

कि सरकार को इस

को

राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखना

यात्रा

थिरुमावलवन ने

थिरुमावलवन ने

सकता है।

गौर करेंगे।

संस्थापक-नेता

थिरुमावलवन

(भाषा)।

कदमश्री स्वयंसेवियों द्वारा इन किफायती होटलों के जरिए 20 खाने की वस्तुओं की बढ़ती रुपए में भोजन के पैकेटों की बिक्री संकट के समय में लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुई है।

> प्रपत्र सं. आइएनसी-26 (कंपनी (निजमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरी क्षेत्र के समक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (निजमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में

एएसएम एयरो प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : ३५२८ सेक्टर-२३, गुडगाँव हरियाणा-122001

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा १३ के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "हरियाणा राज्य" से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" में स्थानांतरित करने के लिए तारीका 20, अक्टूबर, 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के मेमोरेंडम एसोसिएशन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) को इस सूचना के प्रकाशन की तारीखा से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति, आवेदक कंपनी की उनके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृते की ओर रो एएसएम एयरो प्राईवेट लिमिटेड हस्ता./ तिथि : 20.10.2020 पुनीत महाजन स्थान : गुडगाँव निदेशक ਡੀਆईए**ਕ : 0636037**1 हाऊस नं. ३५२८ सेक्टर-२३, गुडगॉब हरियाणा-122001

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) विद्यमान कम्पनियों के लिए लाइसेन्स हेतु समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन समक्ष : कंन्ग्रीय सरकार

चत्तरी क्षेत्र कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(1) तथा कन्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के विषय में

सं विषय में : बादली इंजीनियरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड. जिसका पंजीकृत कार्यालय बादली इंड. एस्टेट एसोसिएशन,

लद्धारा सर्वसम्बरण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम्, 2013 की धारा 8 के लहत केन्द्रीय सरकार को आवेदन दिया है कि कम्पनी, अधिनियम की चारा ह के तहत लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने हेत् दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को सम्पन्न वार्षिक आग बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निकंपनों में, इसके नाम में 'तिमिटेड' शब्द या 'प्राइवेट लिमिटेड' शब्द समूह जोडे बगैर धारा 8 के तात पंजीकृत होने की इधकुक है। कोई भी व्यक्ति, जिसका हित कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन / रिवर्ति से प्रमावित होने की संभावना है, अपने हित और विशेध के आधारों के उल्लेखयुक्त शपधपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, चतुर्थ

ताल, आईएफलीआई टावर, 61, नेहरू प्लेश, नई दिल्ली -

110019 को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिन के

मीतर सुपूर्व कर सकता है अधवा करवा सकता है अधवा

यंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक

कन्पनी को इसके नीचे लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय वर्त बादली इंजीनियरिंग क्लस्टर प्राइनेट लिमिटेड Dritt : 51-10-2020 रवि सूच (नियंशक) स्थान : जलर परिवर्ग दिल्ली कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता बादती ईंड एस्टेट (सोविएसन, प्रशा. सम्ब, बादली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली-110042

APLAPOLLO CIN: L74899DL1986PLC023443; Website: www.aplapollo.com Registered Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092 Corporate Office: 36, Kaushambi, near Anand Vihar Terminal,

behind wave cinema, Ghaziabad-201010 Email: investors@aplapollo.com; Tel. +91-121-4041400, Fax: +91-120-4041444 **CORRIGENDUM** 

Nith reference to the financial results of the Company published in the Newspaper(s) i.e., The Financial Express dated 29.10.2020, Jansatta dated 29.10.2020 and The Economic Times dated 30.10.2020, the heading of the first column (from right) in both the consolidated and standalone financial results tables be read as "Quarter ended Sep 30, 2019 (Unaudited)" in place of "Quarter ended Sep 30, 2020". Other contents of the publication remain unchanged. The inadvertent error is regretted.

For APL Apollo Tubes Limited

(Deepak CS)

राष्ट्र

Date: 30.10.2020 Place: Delhi **Company Secretary** 

फेडरल-मोगुल गोएट्जे (इंडिया) लिमिटेड TENNECO CIN: L74899DL1954PLC002452 पंजीकृत कार्यालयः हीएलएफ प्राहम टावर, 10 प्राउण्ड फ्लोर, एक- 79 व 80, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020, टेली./फैक्स: + 91 11 49057597

#### वेबसाइटः www.federalmogulgoetzeindia.net, ई-मेलः investor.grievance@tenneco.com सूचना

भारतीय प्रतिभृति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्वॉ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 29, (1) (a) एवं 47 के अनुसरण में एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार 12 नवम्बर, 2020 को अन्य विषयों के अतिरिक्त 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही/अर्धवार्षिक अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के अनुमोदन हेतू, आयोजित की जायेगी।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.federalmogulgoetzeindia.net एवं स्टॉक एक्सचेंज जहां पर कम्पनी के अंश स्वीबद्ध हैं, की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

कॉर्पोरेट ऑफिस : पारस दिवन टॉवर, कृते फेडरल-मोगुल गोएट्जे (इंडिया) लिमिटेड 10" पलोर, टॉवर बी, सेक्टर 54,

गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गांव- 122002 स्थान : दिल्ली तिथि : 30 अक्टूबर, 2020

वित्तीय या अन्यथा के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

(डा. खालिद इकबाल खान) पूर्ण-कालिक निदेशक-विधिक एवं कम्पनी सचिव

हस्ताक्षर/-

CIN: L74899DL1988PLC032166 रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, भानोट कॉर्नर, पाम्पोष एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-। नई दिल्ली-110048, फोन: +91-11-26440917, 26440925, फैक्स: +91-11-26216922 वेबसाईट : www.uflexltd.com, इमेल : secretarial@uflexltd.com

एतद द्धारा सुचित किया जाता है कि निम्न लिखित शेयर प्रमाण पत्रों के खो जाने की सुचना दी गई है और उनके धारकों ने कंपनी से अनुरोध किया है कि वह खो गये मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले में दुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करें। किसी भी व्यक्ति / संस्था को निम्न् शेयरो में कोई दिलचस्पी या दावा है या किसी व्यक्ति को खप्लिकेट के मृददे पर कोई आपत्ति है वो नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर कंपनी के रजिस्टर्ड आफिस में अपनी लिखित आपित दे सकता है। ऐसे नहीं करने पर कंपनी विचार करने के लिए स्वतंत्र होगी । तथा कंपनी ऐसे किसी भी व्यक्ति / संस्था के किसी भी नुकसान,

फोलियो सं.	नाम	प्रमाणपत्र सं.	विशिष्ट सं,	शेयरों की सं
031727	सुरेश कुमार गुप्ता	158085-158086	8300735-8300834	100
022469	सुनिता गुप्ता	13952 227498-227500	3692801-3692850 15427245-15427388	194
022471	सुरेश गुप्ता	227508-227513	15427721-15428008	288
013522	आशा मोहन्ती	248785	16293852-16293856	5
021050	आशा जैन मिस्टर एन के जैन	226782	15401092-15401123	32
016860	निरंजन कुमार मित्रुका	67831 80067 225241	6895581-6895610 7466901-7466925 15361449-15361479	86
N01284	नमावेवी	240221-240222	15955638-15955737	100
059823	ईषा बंसल	401662	56458644-56458710	67
027706	कामाशी कृष्णामूर्ति गंदा कृष्णामति	149555-149558 234961-234962	8176435-8176634 15760982-15761061	288
058034	सुषमा गुप्ता राजिंदर कुमार गुप्ता	399910	49484294-49484326	33

क्ते यूपलैक्स लिमिटेड अजय कृष्णा वरि. उपाध्यक्ष (लीगल) एवं कम्पनी संचिव ACS No.3296 स्थान : नोएडा पता : शी-001, कृष्णा अपरा रेजिकेसी तिथि : 30.10.2020 ई-a, संकटर-a1, भोएसा-201301 (प.प.)

## RattanIndia

### रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

(CIN: L74110DL2010PLC210263)

पंजीकृत कार्यालय: एच. नं. 9, पहली मंजिल, गाँव हौज़ खास, नई दिल्ली -110016 फोन :011-46611666 फैक्स : 011-46611777 वेबसाईट: www.rattanindia.com/ril ई-मेल: ir@rattanindia.com

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार एत्दद्वारा सुचित किया जाता है कि अन्य व्यवसायों के साथ-साथ सितम्बर 30, 2020 को समाप्त हुई तिमाही और छमाही के लिए, रतनइंडिया **इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड** (कंपनी) के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और संयक्त वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरूवार, नवम्बर 5, 2020 को आयोजित की जाएगी।

यह सुचना कंपनी की वेबसाईट और स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाईट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है ।

कृते रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: अक्टूबर 30, 2020

आर. के. अग्रवाल कंपनी सचिव

सीआइएन: L27109DL1995PLC338407 बानी कारपोरेट वन टावर, सुईट नं. 308, तीसरा तल, प्लाट नं. 5, कमर्शियल सेंटर, जसोला, दिल्ली-110025

एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड

टेली: +91-11-48593300, फैक्स: +91-11-48593320 इमेलः cs@mblinfra.com, वेबसाइटः www.mblinfra.com सूचना

सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकृटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुवर्ती एतदृद्वारा सुचना दी जाती है कि दिनांक 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलोन तथा समेकित दोनों) को रिकार्ड पर लेने तथा परस्पर विचार, अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक वीरवार, 12 नवंबर, 2020 को आयोजित की जाएगी। यह सूचना बीएसई लिमि. की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और कंपनी की वेबसाइट जैसे www.mblinfra.com पर भी उपलब्ध है। कते एमबीएल इन्फ्रास्टक्चर्स लि.

हस्ता./- अनुभव महेश्वरी दिनांक: 29.10.2020 स्थानः नई दिल्ली कंपनी सचिव

# **RattanIndia**

## रतनइंडिया पावर लिमिटेड

(CIN: L40102DL2007PLC169082)

पंजीकृत कार्यालय : ए-49, तल मंजिल, रोड नं. 4, महिपालपुर, नई दिल्ली - 110037 फोन : 011-46611666 फैक्स : 011-46611777

वेबसाईट: www.rattanindia.com, ई-मेल: ir@rattanindia.com

#### सूचना

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार एत्दद्वारा सूचित किया जाता है कि अन्य व्यवसायों के साथ-साथ सितम्बर 30, 2020 को समाप्त हुई तिमाही और छमाही के लिए, रतनइंडिया पावर लिमिटेड (कंपनी) के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और संयुक्त वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरूवार, नवम्बर 5, 2020 को आयोजित की जाएगी।

यह सूचना कंपनी की वेबसाईट और स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाईट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते रतनइंडिया पावर लिमिटेड

ललित नारायण मठपती स्थान : नई दिल्ली दिनांक : अक्टूबर 30, 2020 कंपनी सचिव



## Bharat Rasayan Limited

Regd. Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi - 110008. CIN: L24119DL1989PLC036264 investors.brl@bharatgroup.co.in Website: www.bharatgroup.co.in

NOTICE is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, November 12, 2020, inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results of the Company for the guarter and six months ended September 30, 2020.

The said Notice may be accessed on the Company's website at http:// www.bharatgroup.co.in and may also be accessed on the Listed Stock Exchange website at http://www.nseindia.com.

Further, the Trading Window of the Company shall remain closed from October 30, 2020 to November 14, 2020 (both days inclusive) for the specified persons in terms of Code of Conduct of the Company to regulate, monitor and report of trading in Company's securities by insiders framed under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

For BHARAT RASAYAN LIMITED (R.P.GUPTA) New Delhi. October 30, 2020. Whole Time Director

#### RAM RATNA WIRES LIMITED (CIN: L31300MH1992PLC067802)

Regd. Office: Ram Ratna House, Oasis Complex, P.B.Marg,

#### Worli, Mumbai 400 013 • Tel: +91 - 22 - 2494 9009/ 2492 4144 Email Id: investorrelations@rrglobal.com • Website: www.rrshramik.com

#### NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 10th November, 2020, inter alia, to consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on 30° September, 2020.

The said notice may also be accessed on the Company's website at www.rrshramik.com and on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com

For Ram Ratna Wires Limited

Saurabh Gupta

Place: Mumbai Dated: 30th October, 2020

**Company Secretary** क्सकेम पॉलीमर्स इण्डिया प्राइवेट लिमि (पूर्व की एसएसपीएल पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय : सी-34ए, प्रथम तल, हरी नगर घंटा घर, नई दिल्ली-110064 दूरभाष नं. : +91 89800 37334 ई-मेल आईडी : info@ssplpolymers.com

सीआईएन : U24290DL2012PTC238505 वेबसाइट : www.xchemindia.com फैक्ट्री कार्यालय : प्लॉट नं. 10, सर्वे सं. 333, पी/1, बाल्दा इंडस्ट्रियल पॉर्क, जीआईडीसी, पर्दी, वलसाद-396125, गुजरात [कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम. 2013 की धारा 13(4) एवं कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(क)

एक्सकेम पॉलीमर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व की एसएसपीएल पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड) (''कम्पनी'') के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी–34ए, प्रथम तल, हरी नगर घंटा घर, नई दिल्ली–110064 तथा फैक्ट्री कार्यालय प्लॉन् नं. 10, सर्वे सं. 333, पी/1, बाल्दा इंडस्ट्रियल पॉर्क, जीआईडीसी, पर्दी, वलसाद-396125, गुजरात पर है।

रतद्वारा जनसामान्य को सुचित किया जाता है कि यह कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन क्षेत्री निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कार्यालय के माध्यम से कार्यरत केन्द्र सरकार के समक्ष आवेदन फाइल करने का प्रस्ता करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय ''रा.रा.क्षे. दिल्ली'' से ''गुजरात राज्य'' में स्थानान्तरित करने के लि सोमवार, 12 अक्टूबर, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के सन्दर्भ में कम्पनी वे शेयरधारकों को विधिवत अनुमोदित होने पर कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की माँग की गयी है। कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपनि ग्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी–2. विंग. दुसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपूर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय रक्सकेम पॉलीमर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-34ए, प्रथम तल, हरी नगर घंटा घर, नई दिल्ली-110064

कते एक्सकेम पॉलीमर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व की एसएसपीएल पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक : 31.10.2020 स्थान : नई दिल्ली

खालिद कमाल उस्मार्न (डीआईएन : 01280319

# NIIT

### NIIT LIMITED

Regd Office: 8, Balaji Estate, First Floor, Guru Ravidas Marg, Kalkaji, New Delhi-110019 Ph.: 91 (11) 41675000 Fax: 91 (11) 41407120 Website: http://www.niit.com Email: investors@niit.com Corporate Identity Number: L74899DL1981PLC015865

Extract of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020

(Rs. in Millions, except per share data)

#### Consolidated Standalone Quarter ended Period ended Year ended Year ended Period ended Quarter ended 3 Months Preceding Correspond-Year to date Year to date Previous 3 Months Preceding Corresponding Year to date Year to date Previous ended 3 months ing 3 months figures for the figures for the year ended ended 3 months 3 months figures for the figures for the year ended September ended June ended current period previous period March 31, September ended June ended current period previous period March **Particulars** No. 30, 2020 30, 2020 ended Septemended Septem-2020 30, 2020 September ended Septemended Septem-31, 2020 September 30, 2020 ber 30, 2020 ber 30, 2019 30, 2019 ber 30, 2020 ber 30, 2019 30, 2019 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Unaudited (Restated - refer (Restated - refer (refer notes 4 (refer notes 4 and 5) and 5) note 4) note 4) 2,323.46 4,206.54 865.05 797.21 1,662.26 2,087.15 4,008.57 Total Income from Operations 2,188.70 2,017.64 4,341.27 8,891.83 1,128.90 Net Profit for the period (before Tax, 375.42 398.58 335.87 507.14 774.00 786.02 1,216.10 254.39 539.12 590.26 755.44 1,415.61 Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit for the period before tax (after 379.65 389.99 769.34 13,796.10 14,132.92 301.86 539.12 483.68 15,335.73 15,217.78 Exceptional and/or Extraordinary items) 507.14 181.82 Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 331.63 2,139.65 632.12 13,176.78 13,577.30 134.66 239.53 2,177.47 374.19 13,820.09 13,777.69 (before discontinued operations) 300.49 (180.62)(75.32)(94.05)(Loss) after tax from discontinued operations (40.61)(38.03)(51.32)(78.64)(305.46)(4.48)(5.18)(5.96)(9.66)Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 259.88 293.60 2.088.33 553.48 12,996.16 13,271.84 130.18 234.35 2,171.51 364.53 13,744.77 13,683.64 पत्रकारों से कहा कि Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income 13,649.44 (after tax)] 248.70 301.43 2,093.74 550.13 12,983.43 13,310.14 148.26 240.22 2,160.39 388.48 13,732.37 Paid-up equity share capital (face value of 283.52 283.20 335.79 283.52 335.79 283.52 283.20 335.79 283.52 335.79 Rs. 2 each, fully paid) 283.03 283.03 दिया है कि वह इस पर 14,924.51 15,044.22 Reserves excluding revaluation reserves Earnings/(Loss) Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised, in Rs.) Continuing Operations भगवा पार्टी अपनी - Basic 2.13 2.31 12.75 4.44 78.63 84.78 0.95 1.70 12.99 2.64 82.46 86.01 2.30 Diluted 2.11 12.75 4.42 78.08 0.94 1.69 2.63 85.53 84.31 12.91 81.87 Discontinued Operations - Basic (0.29)(0.26)(0.31)(0.56)(1.08)(0.03)(0.04)(0.04)(0.07)(0.45)(0.59)(1.91)(0.59) Diluted (0.29)(0.26)(0.31)(0.56)(0.03)(0.04)(0.04)(0.45)(1.08)(1.91)(0.07)Continuing and Discontinued Operations की कोशिश कर रही है 1.84 2.05 12.44 3.88 77.55 82.87 0.92 1.66 12.95 2.57 82.01 85.42 Basic Diluted 1.82 2.04 12.44 82.40 1.65 2.56 84.94 3.86 77.00 0.91 12.87 81.42 Notes: भाजपा ने छह नवंबर से

- The above is an extract of the detailed format of guarterly / year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarterly छह दिसंबर के बीच I year to date Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website, www.niit.com. 'वेल' यात्रा निकालने
  - The above results were reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on October 30, 2020.
  - Total Income from Operations represent revenue from operations.
  - During the previous year, in line with its restructuring strategy of subsidiaries, the Company signed a business purchase the business (excluding cash and cash equivalents) from its wholly owned subsidiary NIIT Institute of Process Excellence Limited. Further, in line with its stated long term strategy of reducing exposure to low margin, capital intensive government business, the Company had decided not to pursue new skill contracts in its wholly owned subsidiary NIIT Yuva Jyoti Limited ("NYJL") and discontinue operations post completion of continuing commitments. During the previous year the Company took over the intellectual property rights and other assets and liabilities from NYJL through transfer agreements. The above transactions were treated as business combination and the Company had applied pooling of interest method to account for such Business Combination. Based on the requirements of Appendix C to Ind AS 103, the Company has restated financial information appearing in these financial results in respect of guarter and period ended September 30, 2019.

In pursuance of applicable accounting standard (IND AS - 105), the net results (i.e. revenue minus expenses) of NYJL operations for the guarter are disclosed separately under 'Discontinued Operations' along with corresponding restatement of the financial results for the previous periods.

During the previous year, the Group has decided to divest Mindchampion Learning Systems Limited (MLSL), to a strategic / financial investor. In the interim period, NIIT remains committed to support MLSL for continuity of operations and value creation for all stake holders. In pursuance of applicable accounting standard (IND AS - 105), the net results for the quarter of MLSL operations (revenue less expenses) are disclosed separately under 'Discontinued Operations', along with corresponding reclassification of the consolidated financial results for the previous periods.

> By order of the Board For NIIT Limited

Vice-Chairman & Managing Director

Place: Gurugram Date: October 30, 2020

www.readwhere.com

एक

चाहिए।

Vijay K Thadani